

Total No. of Questions – 9]  
(2022)

[Total Pages : 3

**9317**

**M.A. Examination**

**PUBLIC ADMINISTRATION**

(Administrative and Management Thinkers)

Paper-I

(Semester-I)

Time : Three Hours]

[Max. Marks : {Regular : 80  
Private : 100

*The candidates shall limit their answers precisely within the answer-book (40 pages) issued to them and no supplementary/continuation sheet will be issued.*

परीक्षार्थी अपने उत्तरों को दी गयी उत्तर-पुस्तिका (40 पृष्ठ) तक ही सीमित रखें। कोई अतिरिक्त पृष्ठ जारी नहीं किया जाएगा।

**Note :** Attempt *five* questions in all, selecting *one* question from each unit. Question No. 9 is compulsory.

**नोट :** प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करते हुए पाँच प्रश्न करो। प्रश्न 9 अनिवार्य है।

9317/1200/777/842

227 [P.T.O.]

## UNIT-I ( इकाई-I )

1. Discuss the ideas of Kautilya.  
कौटिल्य के विचारों का वर्णन करो।
2. What are views of Mahatama Gandhi on Satyagrah?  
Discuss.  
सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या हैं? वर्णन करो।

## UNIT-II ( इकाई-II )

3. Discuss the features of Human Relation Approach of Elton Mayo.  
एल्टन मैयो की मानव सम्बन्ध उपागम की विशेषताओं का वर्णन करो।
4. Who are the critique of Weberian approach of bureaucracy? Discuss.  
मैक्स वैबर के नौकरशाही उपागम के आलोचक कौन हैं? वर्णन करो।

## UNIT-III ( इकाई-III )

5. Discuss the Ideas of Herzberg.  
हर्जबर्ग के विचारों का वर्णन करो।
6. Discuss the features of McGregor's theory X and Y.  
मैकग्रेगर के सिद्धान्त X और Y की विशेषताओं का वर्णन करो।

## UNIT-IV ( इकाई-IV )

7. What is the contribution of Likert? Discuss.  
लिकर्ट का योगदान क्या है? वर्णन करो।
8. Discuss the Peter Drucker's Management Theory.  
पीटर डर्कर के प्रबन्ध-सिद्धान्त का वर्णन करो।

## UNIT-V ( इकाई-V )

### Compulsory Question

#### ( अनिवार्य-प्रश्न )

9. Write notes on each within 150 words.  
प्रत्येक पर 150 शब्दों में नोट लिखो :
- (i) Principles of Scientific Management.  
वैज्ञानिक प्रबन्ध के सिद्धान्त।
- (ii) M.P. Follet is the mother of modern management.  
एम.पी. फोलैट आधुनिक प्रबन्ध की जननी है।
- (iii) Functions of Chief Executive.  
मुख्य कार्यपालिका के कार्य।
- (iv) Bazar-Canteen Model.  
बाजार-कैन्टीन प्रतिमान।
-